

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ने ब्रैम्पटन में हेल्थ केयर विस्तार की हिमायत के लिए एक प्रतिशत अस्पताल लेवी के लिए मंजूरी दी

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (7 अप्रैल, 2022) – कल अपनी मीटिंग में, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने, ब्रैम्पटन में हेल्थ केयर विस्तार की हिमायत के लिए एक प्रतिशत अस्पताल लेवी के लिए मंजूरी दी। यह लेवी, पील मेमोरियल अस्पताल (Peel Memorial Hospital) के पुनर्विकास और विस्तार तथा ब्रैम्पटन सिविक अस्पताल (Brampton Civic Hospital) में बनाए जाने वाले कैंसर केयर सेंटर (Cancer Care Centre) के लिए लोकल हिस्से की फंडिंग करने में मदद करेगी।

विलियम ओसलर हेल्थ सिस्टम (William Osler Health System) का अनुमान है कि पील मेमोरियल अस्पताल के पुनर्विकास और विस्तार के लिए, 700 मिलियन डॉलर और कैंसर केयर सेंटर के विकास के लिए 365 मिलियन डॉलर का खर्च आएगा। इन दोनों की कुल अनुमानित लागत, 1.1 बिलियन डॉलर होगी। इन प्रोजेक्टों के लिए आवश्यक अनुमानित लोकल हिस्सा, 250 मिलियन डॉलर है। ओसलर अनुरोध कर रहा है कि सिटी, अनुमानित लोकल हिस्से के 50 प्रतिशत की फंडिंग करे, जो इस समय अनुमानित 125 मिलियन डॉलर है।

ब्रैम्पटन के निवासी, अस्पताल लेवी के नतीजे के तौर पर, औसत सालाना रिहायशी टैक्स बिल में 23.29 डॉलर की औसत वृद्धि देखेंगे। 2022 के बजट के हिस्से के तौर पर, सिटी ने नए पील मेमोरियल अस्पताल के लोकल हिस्से हेतु, 62.5 मिलियन डॉलर की फंडिंग नियत करके, [हेल्थ केयर विस्तार में अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई \(showed its commitment to health care expansion\)](#) थी। आज की अस्पताल लेवी की मंजूरी, इस प्रतिबद्धता पर आधारित है। रिहायशी फाइनेल टैक्स बिल, जुलाई, अगस्त और सितम्बर में देय किशतों के साथ जून में भेजे जाएंगे। टैक्सों के बारे में अधिक जानकारी, Brampton.ca पर पाई जा सकती है।

ऐतिहासिक तौर पर, ब्रैम्पटन को हेल्थ केयर सेवाओं में फंडिंग का अपना उचित हिस्सा नहीं मिला है, जिसके परिणामस्वरूप अस्पताल में बहुत ज्यादा भीड़ और हॉलवे मेडिसिन की स्थिति जैसी समस्याएं हैं, जो कोविड-19 (COVID-19) महामारी के साथ और भी बढ़ गई हैं। जनवरी 2020 में, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने हेल्थ केयर एमरजेंसी की घोषणा की थी और ब्रैम्पटन के हेल्थ केयर अंतराल को दूर करने के लिए प्रांत से अतिरिक्त फंडिंग का अनुरोध करते हुए, अपने हिमायती अभियान “फेयर डील फॉर ब्रैम्पटन” (“Fair Deal for Brampton”) की शुरुआत की थी।

मार्च 2021 में, सिटी ने ओसलर के पील मेमोरियल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेलनेस (Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness) का नए अस्पताल में विस्तार करने के लिए फंडिंग हेतु, [प्रोविंसियल सरकार के द्वारा घोषणा किए गए बजट का स्वागत किया था \(welcomed a budget announcement from the Provincial government\)](#)। इस सप्ताह के शुरू में, प्रोविंस ने घोषणा की कि वह ओसलर के पील मेमोरियल को 24/7 एमरजेंसी विभाग वाले नए अस्पताल में परिवर्तित करने और ब्रैम्पटन

सिविक अस्पताल में कैंसर देखभाल सेवाओं का विस्तार करने के लिए, [21 मिलियन डॉलर का निवेश कर रहा है \(it is investing \\$21 million\)](#)।

फेयर डील फॉर ब्रैम्पटन अभियान के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [Brampton.ca](#) पर जाएं।

हवाले

“ऐतिहासिक तौर पर, ब्रैम्पटन ने अस्पताल में बहुत ज्यादा भीड़ और हॉलवे मेडिसिन की स्थिति का सामना किया है क्योंकि हमारे शहर को, हेल्थ केयर सेवाओं में फंडिंग का अपना उचित हिस्सा नहीं मिला। ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल, ब्रैम्पटन के हेल्थ केयर अंतराल को दूर करने हेतु अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है और हम हमारी कम्युनिटी में हेल्थ केयर सर्विसिज में फंडिंग में मदद करने के लिए, हमारे साझेदारों का धन्यवाद करते हैं।”

- *हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10; चेयर, कार्पोरेट सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“पिछले वर्ष टेली टाउन हॉल में, 70 प्रतिशत से अधिक निवासियों ने राय दी की वे, ब्रैम्पटन में नए पूरी-सर्विस वाले अस्पताल हेतु फंडिंग में मदद के लिए लेवी की हिमायत में हैं। हमारी कम्युनिटी को अतीत में हेल्थ केयर फंडिंग का अपना उचित हिस्सा नहीं मिला है और लोकल अस्पताल की बहुत अधिक भीड़, कोविड-19 महामारी से और भी बढ़ गई है। ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल, यह सुनिश्चित करने हेतु अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है कि हमारे निवासियों का स्वास्थ्य और तंदरुस्ती सुरक्षित है और यह कि हमारी कम्युनिटी को वह हेल्थ केयर मिलती है, जिसकी वह हकदार है।”

- *पैट फोर्टिनी (Pat Fortini), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“ब्रैम्पटन, कॅनेडा में सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाली कम्युनिटीज में से एक है और अच्छी तरह संचालित शहर के तौर पर, हम ब्रैम्पटन में हेल्थ केयर एमरजेंसी पर ध्यान दे रहे हैं और भविष्य की हेल्थ केयर संबंधी हमारी जरूरतों पर ध्यान देने के लिए कदम उठा रहे हैं। हम, ब्रैम्पटन में हेल्थ केयर के लिए अधिक मजबूत भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, हमारे निवासियों के स्वास्थ्य और तंदरुस्ती के हित में, लगातार हमारे साझेदारों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

- *पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“यह, ब्रैम्पटन में हेल्थ केयर के लिए ऐतिहासिक समय है। अस्पताल के पुनर्विकास के लिए 50 प्रतिशत के मौजूदा अनुमानित लोकल हिस्से की हिमायत के लिए, सिटी काउंसिल की प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि ओसलर के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए संसाधन हैं, जिसकी इस कम्युनिटी को जरूरत है और जिसकी वह हकदार है। ओसलर, यह शानदार और जरूरी कदम उठाने के लिए और हमारी सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाली कम्युनिटी को सेवा देने के लिए, अस्पताल में अधिक कैपेसिटी की अनथक हिमायत के लिए, सिटी काउंसिल की सराहना करता है। काउंसिल की प्रतिबद्धता, आने वाले वर्षों में हमारी कम्युनिटी के स्वास्थ्य में एक निवेश है।”

- जेफरी रिची (Geoffrey Ritchie), चेयर, विलियम ओसलर हेल्थ सिस्टम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

multiculturalmedia@brampton.ca